



जनसम्पर्क कार्यालय : एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

## समाचार

### शक्तिभवन में स्वतंत्रता दिवस गरिमामय ढंग से मनाया जाएगा विद्युत कर्मी होंगे पुरस्कृत

**जबलपुर, 7 अगस्त।** एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के तत्वावधान में मुख्यालय शक्तिभवन में 72वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और गरिमामय ढंग से मनाने के लिए सभी संबंधित विभागों की बैठक कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) श्री एम.पी. चिंचोलकर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के विद्युत परिवार द्वारा आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित की गई।

स्वतंत्रता दिवस आयोजन समिति की समीक्षा बैठक में मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) श्री एम.पी. चिंचोलकर, अतिरिक्त महाप्रबंधक श्री व्ही.के. साहू, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी श्री राकेश पाठक, उप महाप्रबंधक विधि एवं प्रशासन श्री आलोक श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री संचार श्री आर.के. अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता प्रशासनिक भवन श्री व्ही.पी. साहू, कार्यपालन अभियंता विद्युत सुधार श्री नवनीत राठौर, वाहन शाखा से ज्ञान सनोरिया, मैनेजर सिविल श्री मिलिंद चौधरी, मैनेजर सिविल श्री राजीव सरैया, कनिष्ठ यंत्री संचार श्री आर.के. सोनी, सुरक्षा अधिकारी श्री आर.एन. यादव एवं केन्द्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के कार्यालय प्रभारी श्री जे.डब्ल्यू. खारपाटे उपस्थित थे।

बैठक में श्री एम.पी. चिंचोलकर एवं व्ही.के. साहू ने स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारी पर बिन्दुवार चर्चा कर निर्धारित किया। समारोह में सतर्कता एवं सुरक्षा विभाग के सुरक्षा सैनिक आकर्षक परेड और बैंड दल देशभक्ति गीतों की धुन प्रस्तुत करेंगे। उत्कृष्ट कार्यनिष्पत्ति के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वर्ष 2017-18 में न्यूनतम विद्युत दुर्घटना के लिए चलित शील्ड प्रदान की इस अवसर पर विभिन्न खेलों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान अर्जित करने वाले रीजन को शील्ड प्रदान की जाएगी, साथ ही पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एवं मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा भी उत्कृष्ट कार्यनिष्पादित करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। केन्द्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के बाल कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।

**समाचार क्रमांक 366/2017**

(राकेश पाठक)  
वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी